



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 3 अगस्त, 2021

श्रावण 12, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन अनुभाग

संख्या 347/तीन-2021-47-2 (1)-2005टीसी

लखनऊ, 3 अगस्त, 2021

अधिसूचना

प0आ0-259

युद्धाभ्यास एवं खुले क्षेत्र में गोला चलाने तथा तोप दागने का अभ्यास अधिनियम, 1938 (अधिनियम संख्या 5 सन् 1938) की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्र को ऐसा क्षेत्र परिनिश्चित करती हैं, जिसमें 1 अप्रैल, 2021 से प्रारम्भ होने वाली और 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाली पाँच वर्ष की अवधि के लिए नियत कालिक रूप से खुले क्षेत्र में गोला चलाने और तोप दागने का अभ्यास किया जाना प्राधिकृत किया जा सकता है।

अनुसूची

क्षेत्र का विवरण

जिला	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
शाहजहाँपुर	शाहजहाँपुर	शहर खास शुमाली (चुंगी के बाहर)	1	0.518
			2	0.894
			3	0.336
			4	0.198
			5	1.181

1	2	3	4	5
शाहजहाँपुर	शाहजहाँपुर	शहर खास शुमाली (चुंगी के बाहर)	6	0.551
			7	0.380
			8	0.020
			9	0.049
			10	0.081
			11	1.129
			12	0.817
			13	0.178
			14	1.027
			15	1.197
			16	0.069
			17	0.186
			18	1.303
			19	0.223
			20	0.227
			21	0.773
			22	1.234
			23	0.837
			24	0.870
			25	1.453
			26	0.631
			27	0.081
			28	0.085
			29	1.109
			30	0.401
			31	0.462
			32	1.161
			33	1.259
			34	0.101
			35/1	0.115
			36/1	0.047
			37	0.943
			38	1.348
			49	0.162
			50	0.999
			200	0.348
			201	0.178
			202	0.210

1	2	3	4	5
शाहजहाँपुर	शाहजहाँपुर	शहर खास शुमाली (चुंगी के बाहर)	203	0.206
			204	0.862
			205	0.360
			206	0.405
			207	0.064
			208	0.012
			209	0.040
			210	0.341
			211	0.279
		योग	52 गाटा	27.940 हेक्टेयर
		बहादुरपुर बरहा	163	0.201
			164	0.040
			165	0.404
			166	0.818
			167	0.100
			168	0.042
			175	0.482
			176	0.482
			177	0.040
			178	0.943
			179	0.942
			189	0.629
			190	0.162
			191	0.162
			192	0.323
			193	0.131
			194	0.103
			195	0.102
			196	0.103
			197	0.103
			198	0.051
			199	0.051
			200	0.051
			201	0.051
			202	0.050
			204	0.024
			205	0.444
			206	0.444

1	2	3	4	5
शाहजहाँपुर	शाहजहाँपुर	बहादुरपुर बरहा	207	0.587
			208	0.138
			209	0.138
			210	0.275
			211	0.228
			212	0.113
			213	0.113
			214	0.113
			215	0.113
			216	0.023
			217	0.372
			218	0.328
			222	0.110
			223	0.113
			362	1.196
			363	1.196
			364	0.052
			365	0.008
			366	0.028
			367	0.599
			368	0.056
			369	0.020
			370	0.020
			371	0.020
			372	0.020
			373	0.014
			374	0.040
			375	0.040
			376	0.081
			377	0.444
			378	0.016
			379	0.883
			380	0.014
			381	0.896
			382	0.350
			383	0.351
			384	0.030
			385	0.350
			386	0.096

1	2	3	4	5
शाहजहाँपुर	शाहजहाँपुर	बहादुरपुर बरहा	387	0.589
			388	0.028
			389	0.057
			391	0.350
			393	0.131
			394	0.277
			395	0.277
			396	0.256
			397	0.037
			398	1.227
			399	0.254
			400	0.254
			401	0.253
			402	0.254
			403	0.265
			404	0.029
			405	0.873
			406	0.319
			318/411	0.349
			390	0.939
		योग	87 गाटा	24.240 हेक्टेयर
		सतवां बुजुर्ग	497	0.526
			498	0.521
			499	0.508
			500	0.218
			502	0.214
			503	0.066
			504	0.065
			505	0.173
			506	0.024
			507	0.434
			508	0.431
			509	0.231
			515	0.861
			517	2.470
			519	0.030
			520	0.861
			521	0.140
			522	1.215

1	2	3	4	5
शाहजहाँपुर	शाहजहाँपुर	सतवां बुजुर्ग	523	0.195
			524	0.397
			525	1.039
			526	0.158
			527	0.431
			528	0.589
			529	0.524
			530	0.516
			531	1.385
			532	0.159
			533	0.159
			534	0.075
			535	0.317
			539	0.036
			540	0.541
			541	0.542
			542	0.549
			562	0.488
			563	0.184
			573	0.867
			574	0.141
			575	0.316
			576	0.779
			577	0.313
			578	0.087
			579	0.044
			580	0.888
			581	0.018
			582	0.035
			583	0.787
			584	0.788
			585	0.207
			586	0.832
			587	0.229
			599	0.772
			600	0.046
			601	0.024
			602	0.271
			603	0.103

1	2	3	4	5
शाहजहाँपुर	शाहजहाँपुर	सतवां बुजुर्ग	604	0.103
			605	0.104
			606	0.400
			607	0.270
			608	0.269
			609	0.267
			610	0.257
			611	0.041
			612	0.051
			613	0.321
			614	0.322
			615	1.076
			616	0.119
			617	0.521
			618	0.045
			619	0.023
			620	2.164
			644	1.424
			645	1.443
			646	0.040
			647	0.049
			648	1.444
			649	1.711
			650	1.407
			638	0.055
			639	1.714
			640	0.968
			641	0.528
			642	0.063
			643	0.170
			651	0.008
			652	0.370
			653	0.352
			654	0.352
			655	0.351
			656	0.030
			657	0.062
			658	0.055
			659	4.335

1	2	3	4	5
शाहजहाँपुर	शाहजहाँपुर	सतवां बुजुर्ग	660	0.061
			661	0.058
			662	0.060
			663	0.059
			664	0.061
			665	1.283
			666	0.187
			667	1.189
			668	0.238
			669	0.187
			670	0.140
			671	0.176
			672	0.176
			673	0.069
			680	0.063
			681	0.658
			682	1.415
			683	0.025
			684	0.075
			685	2.621
			687	0.295
			688	1.328
			689	0.068
			690	0.962
			691	0.514
			692	0.401
			694	0.060
			695	0.366
			696	0.365
			697	0.369
			698	0.391
			699	2.657
			700	2.627
			701	0.097
			795/711	0.077
		योग	131 गाटा	67.481 हेक्टेयर

**टिप्पणी :-** उपरोक्त अनुसूची विनिर्दिष्ट क्षेत्र का स्थल नक्शा, शाहजहाँपुर के कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

आज्ञा से,  
डा० हरिओम,  
सचिव।



THE Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 347/III-2021-47-2(1)-2005 TC, dated August 3, 2021 for general information :

No. 347/III-2021-47-2(1)-2005 TC

*Dated Lucknow, August 3, 2021*

IN exercise of the powers under sub-section (1) of section 9 of the Manoeuvres, Field Firing and Artillery Practice Act, 1938 (Act no. V of 1938), the Governor is pleased to define the area specified in the Schedule below as the area within which for a period of five years commencing from the 1<sup>st</sup> day of April, 2021 and ending with the 31<sup>st</sup> day of March, 2026 the carrying out, periodically, of field firing and artillery practice may be authorised.

**SCHEDULE**  
**DETAILS OF AREA**

District	Pargana	Village	Plot no.	Approximate area (In Hectare)
1	2	3	4	5
Shahjahanpur	Shahjahanpur	Shahar Khas Shumali (Out of Chungi)	1	0.518
			2	0.894
			3	0.336
			4	0.198
			5	1.181
			6	0.551
			7	0.380
			8	0.020
			9	0.049
			10	0.081
			11	1.129
			12	0.817
			13	0.178
			14	1.027
			15	1.197
			16	0.069
			17	0.186
			18	1.303
			19	0.223
			20	0.227
			21	0.773
			22	1.234
			23	0.837
			24	0.870
			25	1.453
			26	0.631
			27	0.081
			28	0.085

1	2	3	4	5
Shahjahanpur	Shahjahanpur	Shahar Khas Shumali (Out of Chungi)	29	1.109
			30	0.401
			31	0.462
			32	1.161
			33	1.259
			34	0.101
			35/1	0.115
			36/1	0.047
			37	0.943
			38	1.348
			49	0.162
			50	0.999
			200	0.348
			201	0.178
			202	0.210
			203	0.206
			204	0.862
			205	0.360
			206	0.405
			207	0.064
			208	0.012
			209	0.040
			210	0.341
			211	0.279
		<b>Total</b>	<b>52 Plot</b>	<b>27.940 Hect.</b>
		Bhadurpur Barha	163	0.201
			164	0.040
			165	0.404
			166	0.818
			167	0.100
			168	0.042
			175	0.482
			176	0.482
			177	0.040
			178	0.943
			179	0.942
			189	0.629
			190	0.162

1	2	3	4	5
Shahjahanpur	Shahjahanpur	Bhadurpur Barha	191	0.162
			192	0.323
			193	0.131
			194	0.103
			195	0.102
			196	0.103
			197	0.103
			198	0.051
			199	0.051
			200	0.051
			201	0.051
			202	0.050
			204	0.024
			205	0.444
			206	0.444
			207	0.587
			208	0.138
			209	0.138
			210	0.275
			211	0.228
			212	0.113
			213	0.113
			214	0.113
			215	0.113
			216	0.023
			217	0.372
			218	0.328
			222	0.110
			223	0.113
			362	1.196
			363	1.196
			364	0.052
			365	0.008
			366	0.028
			367	0.599
			368	0.056
			369	0.020
			370	0.020
			371	0.020

1	2	3	4	5
Shahjahanpur	Shahjahanpur	Bhadurpur Barha	372	0.020
			373	0.014
			374	0.040
			375	0.040
			376	0.081
			377	0.444
			378	0.016
			379	0.883
			380	0.014
			381	0.896
			382	0.350
			383	0.351
			384	0.030
			385	0.350
			386	0.096
			387	0.589
			388	0.028
			389	0.057
			391	0.350
			393	0.131
			394	0.277
			395	0.277
			396	0.256
			397	0.037
			398	1.227
			399	0.254
			400	0.254
			401	0.253
			402	0.254
			403	0.265
			404	0.029
			405	0.873
			406	0.319
			318/411	0.349
			390	0.939
		<b>Total</b>	<b>87 Plot</b>	<b>24.240 Hect.</b>
		Satwa Bujurga	497	0.526
			498	0.521
			499	0.508

1	2	3	4	5
Shahjahanpur	Shahjahanpur	Satwa Bujurga	500	0.218
			502	0.214
			503	0.066
			504	0.065
			505	0.173
			506	0.024
			507	0.434
			508	0.431
			509	0.231
			515	0.861
			517	2.470
			519	0.030
			520	0.861
			521	0.140
			522	1.215
			523	0.195
			524	0.397
			525	1.039
			526	0.158
			527	0.431
			528	0.589
			529	0.524
			530	0.516
			531	1.385
			532	0.159
			533	0.159
			534	0.075
			535	0.317
			539	0.036
			540	0.541
			541	0.542
			542	0.549
			562	0.488
			563	0.184
			573	0.867
			574	0.141
			575	0.316
			576	0.779
			577	0.313

1	2	3	4	5
Shahjahanpur	Shahjahanpur	Satwa Bujurga	578	0.087
			579	0.044
			580	0.888
			581	0.018
			582	0.035
			583	0.787
			584	0.788
			585	0.207
			586	0.832
			587	0.229
			599	0.772
			600	0.046
			601	0.024
			602	0.271
			603	0.103
			604	0.103
			605	0.104
			606	0.400
			607	0.270
			608	0.269
			609	0.267
			610	0.257
			611	0.041
			612	0.051
			613	0.321
			614	0.322
			615	1.076
			616	0.119
			617	0.521
			618	0.045
			619	0.023
			620	2.164
			644	1.424
			645	1.443
			646	0.040
			647	0.049
			648	1.444
			649	1.711
			650	1.407

1	2	3	4	5
Shahjahanpur	Shahjahanpur	Satwa Bujurga	638	0.055
			639	1.714
			640	0.968
			641	0.528
			642	0.063
			643	0.170
			651	0.008
			652	0.370
			653	0.352
			654	0.352
			655	0.351
			656	0.030
			657	0.062
			658	0.055
			659	4.335
			660	0.061
			661	0.058
			662	0.060
			663	0.059
			664	0.061
			665	1.283
			666	0.187
			667	1.189
			668	0.238
			669	0.187
			670	0.140
			671	0.176
			672	0.176
			673	0.069
			680	0.063
			681	0.658
			682	1.415
			683	0.025
			684	0.075
			685	2.621
			687	0.295
			688	1.328
			689	0.068
			690	0.962
			691	0.514

1	2	3	4	5
Shahjahanpur	Shahjahanpur	Satwa Bujurga	692	0.401
			694	0.060
			695	0.366
			696	0.365
			697	0.369
			698	0.391
			699	2.657
			700	2.627
			701	0.097
			795/711	0.077
		<b>Total</b>	<b>131 Plot</b>	<b>67.481 Hect.</b>

NOTE :- A site plan of the area specified above may be inspected in the Office of the Collector, Shahjahanpur.

By order,  
DR. HARIOM,  
*Sachiv.*